

प्रेस नोट दिनांक- 12.11.2020

(1). यातायात माह के परिपेक्ष्य में दिनांक-12.11.2020 को श्री अंकित मित्तल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा ट्राफिक चौराहा पर यातायात पुलिस द्वारा सघन रूप से वाहन चेकिंग करवायी गयी। वाहन चेकिंग के दौरान महोदय द्वारा तीन सवारी, बिना हेलमेट/सीट बेल्ट, ओवरलोड, ओवरस्पीड एवं बिना मास्क चलने वाले वाहनों को चेक कराया गया। महोदय द्वारा यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहनों का चालान कराया गया एवं वाहन चालकों को यातायात नियमों के सम्बन्ध में जागरूक कर पालन करने एवं मास्क लगाने की अपील की।

वाहन चेकिंग के दौरान श्री घनश्याम पाण्डेय यातायात प्रभारी, श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी पीआरओ, श्री योगेश कुमार यादव टीएसआई एवं अन्य अधि/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(2). आज दिनांक 12.11.2020 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शेषमणि पाण्डेय एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा दीपावली अमावस्या मेला को दृष्टिगत रखते हुये रामघाट, परिक्रमा मार्ग एवं खोही परिक्रमा मार्ग एवं मेला क्षेत्र की सम्पूर्ण वाहन पार्किंग का भ्रमण/निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया गया तथा सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इस दौरान श्री प्रकाश स्वरूप पाण्डेय अपर पुलिस अधीक्षक, उपजिलाधिकारी सदर श्री रामप्रकाश, क्षेत्राधिकारी नगर श्री रजनीश कुमार यादव, ईओ नगर पालिका, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अरुण कुमार पाठक, यातायात प्रभारी श्री घनश्याम पाण्डेय, पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी, चौकी प्रभारी सीतापुर श्री रामवीर सिंह, यातायात उ0नि0 श्री योगेश कुमार यादव, एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण साथ में रहे।

(3). आज दिनांक 12.11.2020 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शेषमणि पाण्डेय एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी मेला व्यवस्था की उपस्थिति में दिनांक 14.11.2020 को पड़ने वाली दीपावली अमावस्या मेला में डियूटी में लगने वाले अधि/कर्मचारीगणों की ब्रीफिंग की गयी। ब्रीफिंग के दौरान अन्य जनपद से आये पुलिस बल तथा जनपद चित्रकूट के पुलिस बल को अमावस्या मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने हेतु निर्देशित किया गया। डियूटी प्वाइन्ट पर सतर्क रहकर ड्यूटी चार्ट के मुताबिक डियूटी करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

दीपावली अमावस्या मेला के पुलिस नोडल अधिकारी श्री प्रकाश स्वरूप पाण्डेय द्वारा बताया गया कि यह मेला दिनांक-13.11.2020 से प्रारम्भ होकर 16.11.2020 तक चलेगा जनपद चित्रकूट धार्मिक स्थल होने के कारण इस मेले में अत्याधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने की सम्भावना है जो रामघाट स्थित पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान कर मत्स्यगजेन्द्रनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करने के पश्चात कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं। मेला को 09 जोन तथा 18 सेक्टरों में बांटा गया है तथा मेला की सुरक्षा व्यवस्था हेतु बाह्य जनपद से आये हुए पुलिस अधि/कर्मचारीगणों की डियूटी लगायी गयी है।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत दिनांक 12.11.2020 को एण्टी रोमियो टीम कोतवाली कर्वी द्वारा ग्राम कालूपुर पाही एवं इलाहाबाद रोड स्थित सीमेन्ट ईटा फैक्ट्री में, शंकर बाजार एवं मण्डी समिति में मजदूर महिलाओं को जागरूक किया, महिला थाना टीम द्वारा बनकट एवं अमानपुर में मजदूरी करने वाली महिलाओं को जागरूक किया, एण्टी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा सीमेन्ट ईटा फैक्ट्री में महिलाओं को जागरूक किया, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर में भ्रमण कर एवं ग्राम नादिन कुर्मियान में ईट भट्टा में काम करने वाली

महिलाओं को जागरूक किया, एण्टी रोमियो टीम बहिलपुरवा द्वारा ग्राम झिंहापुरवा में, एण्टी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा अकबरपुर, डफाईपुरवा की मलिन बस्तियों में खदान में काम करने वाली महिलाओं को जागरूक किया, एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा ग्राम उमरी के सीमेन्ट भट्टा में एवं ग्राम ऊचाडीह में मजदूरी करने वाली महिलाओं को, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा कस्बा बरगढ़, अशोक चौराहा, रामलीला मैदान, खोहर में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वूमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया। एण्टी रोमियो टीम की महिला आरक्षियों द्वारा मजदूरी करने वाली महिलाओं से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पडने पर सम्बन्धित थाना/एण्टी रोमियो टीम व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया। विभिन्न थाना स्तर की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा आवारा रूप से घूम रहे संदिग्ध लड़कों से पूछताछ की गयी तथा हिदायत दी गयी।

महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर उनके अन्दर के आत्मविश्वास को बढ़ाया गया एवं महिला अधिकारों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन मे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री अरुण कुमार पाठक प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह चौकी प्रभारी जिला अस्पताल तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 520/2020 धारा 376/323/504/506 भादवि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के वांछित अभियुक्त बलराम निषाद पुत्र मोहनलाल निवासी कुली तलैया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह चौकी प्रभारी जिला अस्पताल
2. आरक्षी संजीव कुमार

(6). जनपद चित्रकूट पीआरवी 2043 थाना बरगढ़ अंतर्गत दिनांक 11/11/2020 को समय 15:36 बजे इवेंट संख्या 7722 द्वारा घटनास्थल कोल्हाई थाना बरगढ़ से कॉलर शैलेश जी द्वारा सूचना दी गयी कि एक्सीडेंट हुआ है 4 लोग गंभीर रूप से गाड़ी की पेड़ से टक्कर हुई है। इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को जानकारी हुई कि एक 4 व्हीलर गाड़ी अनियंत्रित होकर महुआ के पेड़ से टकरा गई थी जिससे 6 लोग घायल हो गये थे जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल थे। पीआरवी कर्मियों ने तत्काल गंभीर रूप से घायल 02 लोगो को पीआरवी वाहन द्वारा chc अस्पताल मऊ में भर्ती कराया और शेष सभी घायलों को प्राइवेट वाहन द्वारा लाकर chc मऊ में भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर थाना मऊ पुलिस पहुंची तथा घायलों के परिजनों को भी सूचना दी गई।

पीआरवी स्टाफ:-

कमांडर – मुख्य आरक्षी राममूरत
पायलट - होमगार्ड राजकुमार